

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-02072024-255083  
SG-DL-E-02072024-255083असाधारण  
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]	दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 2, 2024/आषाढ 11, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 85
No. 167]	DELHI, TUESDAY, JULY 2, 2024/ASHADHA 11, 1946	[N. C. T. D. No. 85

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह पुलिस-I/स्थापना विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 2 जुलाई, 2024

फा. सं. 11/08/2024/गृ.पु.-II/पार्ट फाइल-I/1674 से 1689.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 28 जून, 2024 की एस0ओ0 2506 (ई) के साथ पठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (2023 का अधिनियम 46) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित को निर्दिष्ट करते हैं :

- प्रत्येक पुलिस जिले के जिला मुख्यालय पर स्थित पुलिस नियंत्रण कक्ष को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 37 की उप-धारा (क) के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित पुलिस नियंत्रण कक्ष घोषित किया जाता है।
- दिल्ली पुलिस मुख्यालय के पुलिस नियंत्रण कक्ष को भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 37 की उप-धारा (क) के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार हेतु पुलिस नियंत्रण कक्ष घोषित किया जाता है।

3. जिला मुख्यालय पर स्थित पुलिस नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 37 की उप-धारा (ख) के अंतर्गत अनुरक्षण तथा सूचना के प्रदर्शन हेतु उत्तरदायी अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
4. प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर स्थित पुलिस नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 37 की उप-धारा (ख) के अंतर्गत अनुरक्षण तथा सूचना के प्रदर्शन हेतु उत्तरदायी अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से और उनके नाम पर,

डॉ. शशिपाल डबास, उप-सचिव

### HOME POLICE-I/ESTABLISHMENT DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

Delhi, the 2nd July, 2024

**F. No. 11/08/2024/HP-II/Part file-I/1674 to 1689.**—In exercise of the power conferred by Section 37 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act 46 of 2023) read with S.O. 2506(E) dated 28<sup>th</sup> June, 2024, issued by Ministry of Home Affairs, Government of India, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby specifies the following for the purpose of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023:

1. The police control room located at the District Headquarters of every Police District are declared to be the police control room established under the provisions of Sub-section (a) of Section 37 of Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023.
2. The police control room of the Delhi Police Headquarters is also declared to be the police control room for Government of NCT of Delhi established under the provisions of Sub-section (a) of Section 37 of Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023.
3. The Officer In-charge of the Police Control Room located at the District Headquarters is designated as the officer responsible for maintenance and display of information under Sub-section (b) of Section 37 of Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023.
4. The Officer Incharge of the Police Control Room located at every Police Station is designated as the officer responsible for maintenance and display of information under Sub-section (b) of Section 37 of Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023

This notification shall come into force with immediate effect.

In the Name and by Order of  
Lieutenant Governor of NCT of Delhi,

Dr. SHASHIPAL DABAS, Dy. Secy.